

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली
हौज खास, नई दिल्ली -110016
(औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई)
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI
Hauz Khas, New Delhi-110016
(Industrial Research & Development Unit)

No. IITD/IRD/RM00029N/

494748

Dated:23/02/2026

Advertisement No.: IITD/IRD/048/2026

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा।

Title of the Project	Biomass Derived Functionalized Carbon Nanomaterials for Next Generation Energy Storage Devices . (RM00029N)	
Funding Agency	Suzuki Innovation Centre, NBV Community Pvt. Ltd., Bengaluru	
Name of the Project Investigator	Prof. Bhanu Nandan, Department of Textile & Fibre Engineering [email ID: bhanunandan@gmail.com]	
Deptt./Centre	Department of Textile & Fibre Engineering	
Duration of the Project	Upto: 01.12.2028	
Post (s)	Consolidated fellowship / Pay-slab	Qualifications
Jr. Research Fellow - (1)	Rs.37,000/- p.m. plus HRA @ 27%	Essential Qualification: M.Sc./M.Tech in Chemistry/Physics/Polymer Science/Rubber Technology/ Material Science/Chemical Engineering/Fiber Science/Textile Technology/Energy Science/relevant. Candidate should have obtained First class in all the previous degrees and certificates. The candidate with M.Sc. degree must have qualified GATE/NET* exam. Also, the candidate must have obtained CGPA of more than 7.0 (70% aggregate marks) in their M.Tech./M.Sc. degree. *The requirement of NET/GATE examination for the selection to the post of JRF may be relaxed for the candidates who have graduated from Centrally Funded Technical Institutes (CFTIs) with CGPA of more than 8.000 (80% aggregate marks).

The candidates who are interested to apply for the above post should download **Form No. IRD/REC-4** from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. by e-mail with advertisement No. on the subject line to Prof. Bhanu Nandan at email id: bhanunandan@gmail.com

IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the online interview details. Only short-listed candidates will be informed for online interview. In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact to Prof. Bhanu Nandan at email id: bhanunandan@gmail.com

5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है. एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा। The last date for submitting the completed applications by e-mail is 10/03/2026 by 5.00 p.m.

AD
23/02/2026

कार्यवाहक प्रमुख (आईआरडी स्थापना)

वितरण

- Head of the Deptt./Centres/Units : It is requested that the contents of the Above Advt. be brought to the notice of the staff working in your Deptt./Centre/Unit
- Webmaster, IRD : To put advertisement at IITD website.
- Notice Boards
- Advertisement file
- Prof. Bhanu Nandan, PI, Deptt. of Textile & Fibre Engineering
- Copy to Chairperson, DRC/CRC